

Printed from

इकनॉमिक टाइम्स

ईजी कैब अक्टूबर से करेगी साझा टैक्सी की शुरुआत

24 Jun, 2008, 0616 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स

शीतल गौड़

नई दिल्ली: ईजी कैब दिल्ली में ऐसी व्यवस्था शुरू करने जा रही है जहां कई लोग मिल कर टैक्सी का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह योजना अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी। यह सुविधा अभी तक मुंबई में ही थी।

ईजी कैब टैक्सी के सीईओ अशोक वशिष्ठ ने बताया कि अगले 3-4 महीनों में वह दिल्ली में कार के साझा इस्तेमाल के लिए पूल कैब नाम से एक योजना ला रहे हैं। अशोक ने बताया कि ईजी कैब अभी इसके लिए सॉफ्टवेयर बना रही है जिसमें दिल्ली में कार पूलिंग की जरूरत से जुड़ी सभी जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जा सके। इस सॉफ्टवेयर पर लोग खुद को रजिस्टर करवा सकेंगे। कार साझेदारी से संबंधित सभी सवाल, जैसे कितनी दूरी के लिए कार पूलिंग करनी है, कहां से कहां तक का सफर है, कैसी गाड़ी चाहिए और एक ही रास्ते के लिए कितने कार साझेदार होंगे, ऐसी जानकारी जुटाई जाएगी। अशोक ने बताया कि इससे एक ही वक्त में 50,000 से ज्यादा लोगों का एक साथ प्रबंधन करने में आसानी होगी।

अशोक ने कहा कि ईजी कैब के पास अभी 550 टैक्सी हैं। इस योजना के तहत इस साल के अंत तक वे 1,500 टैक्सी जोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कार पूलिंग की मांग सबसे ज्यादा है। एक व्यक्ति एक दिन में 20 किलोमीटर के टैक्सी इस्तेमाल के लिए 300 रुपए देता है। यदि वह टैक्सी 4 अन्य लोगों के साथ शेयर करता है, तो उसे सिर्फ 60 रुपए देने होंगे जिससे

आने-जाने का खर्चा बहुत कम हो जाएगा।

कारपूल नाम से एक वेबसाइट चलाने वाले योगेश ने बताया कि उनके यहां लोग कार पूलिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी वेबसाइट पर सभी मेट्रोपोलिटन शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद तक के ग्राहकों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और वे खुद ही कार पूलिंग के लिए पार्टनर ढूंढते हैं। उन्होंने बताया कि उनके 60 फीसदी से ज्यादा ग्राहक दिल्ली के हैं, इसलिए कार पूलिंग के मामले में दिल्ली में बाजार बहुत बड़ा है क्योंकि इस सुविधा को गाड़ी के मालिक और बिना कार वाले दोनों इस्तेमाल करना चाहते हैं।

[About Us](#) | [Advertise with Us](#) | [Careers @ TIL](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#)

Copyright © 2008 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: [Times Syndication Service](#)

This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of

1024x768